



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साइरियल प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शाके 1941—सितम्बर 16, 2019

Bhadra 25, Monday, Saka 1941—September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER

Jaipur, September 13, 2019

**F.10 (Elec) LSG/19/10050** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Rani khurd has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Rani Khurd. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,  
Ujjwal Rathore,  
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगर पालिका रानी खुर्द जिला-पाली राज0  
प्रोफॉर्मा - क

वार्ड संख्या 01

ऐरिया

मगरी के नीचे वाले माताजी मन्दिर के उत्तर दिशा में सीढ़िया उत्तरते हुए दायी तरफ के मकानात लेते हुए रानी गांव कच्चे रास्ते पर पुर्व दिशा में दायी और मुड़कर आगे पुखराज कुम्हार के मकान से चलते हए हेमाराम सरगरा के मकान से शनिश्चर जी मन्दिर को लेते हुए दक्षिण दिशा में दायी और मुड़कर रामदेव जी मन्दिर किस्तुरजी मेघवाल नाथुसिंह का कोर्नर प्लॉट लेते हुए सीधा चलते हुए आदाराम/कलाजी मेघवाल से जयसिंह/कल्यान सिंह राजपुत के मकान से सिधा महादेव जी मन्दिर की हाल भीमसिंह से पेमाराम चौधरी के मकान के नुक्कड़ से पश्चिम दिशा में दायी और रोड क्रास कर पोनी / जगराम राईका से दक्षिण दिशा में दायी और चलते हुए पुना/राजाजी चौधरी के कॉर्नर प्लॉट के नुक्कड़ से पश्चिम दिशा में मुड़कर दायी और चलते हुए पुरानी आईस फैक्ट्री से मुकेश कुमार/मांगीलाल भील, शान्तिलाल/मोहनदास के मकान को लेते हुए पुनाराम/हंजाराम भील के मकान को लेते हुए मुकेश/लाङुराम भील के मकान को लेते हुए गणेशसिंह राजपुरोहित के मकान को लेते हुए पुना दक्षिण दिशा में बायी और हंगामी/चेतनदास के नुक्कड़ से उत्तर दिशा में मुड़कर बायी और गिरधारी भील के मकान से पानी की जी.एल.आर. टंकी के आसपास मकानात लेते हुए हंजा/मालाराम भील के मकान को लेते हुए पुर्व दिशा में बायी और नीचे उत्तरते हुए सामुदायिक

भवन को लेते हुए डालाराम/लाडुराम के नुक्कडप्लॉट से उत्तर दिशा में बायी ओर आगे बढ़ते हुए बिशनसिंह जब्बार सिंह के मकान को लेते हुए सामने स्थित नरपतसिंह के मकान को लेते हुए पुर्व दिशा में बायी ओर चलते हुए पेमाराम सरगरा के नुक्कडमकान से उत्तर दिशा में बायी और चलते हुए चेलाराम/जगराम मेघवाल के मकान से पुनः माताजी मन्दिर के बीच समस्त भाग जिसमें आमने सामने की गलियां मेघवालों का वास राजपुतों का वास का भाग भील का वास मगरी के नीचे का भाग सम्मलित हैं।

### वार्ड संख्या 02

#### ऐरिया

नगर पालिका सीमा चेनसिंह राजपुरोहित के प्लोट से दक्षिण दिशा में दायी तरफ चलते हुए भंवरसिंह जी राजपुत के मकान को लेते हुए पश्चिम दिशा में घुमते हुए जीवाराम/नेतीजी राईका से जीवाराम माली से शंकरलाल लुहार के मकान को लेते हुए पश्चिम दिशा में बायी तरफ जालमसिंह पुत्र प्रभुसिंह राजपुरोहित के मकान के कार्नर से दक्षिण दिशा में मुड़कर सीधे सुकनराज जैन के प्लोट को लेते हुए आगे रोड क्रास कर सीधे मामाजी का मन्दिर को छोड़ते हुए पुर्व दिशा में दायी ओर घुमते हुए मदनसिंह राजपुत(काठडी वाले) की दुकान के आगे चलते हुए दक्षिण दिशा में मुड़कर जी.एस.एस. रोड को लेते हुए मामाजी मन्दिर के पिछे के आमने सामने के मकान लेते हुए कुमावत धर्मशाला से भुरिया बाबा मन्दिर के नीचे के मकान से जी.एस.एस. के पास के खेत खलीयान लेते हुए दुदवड रोड से बायी ओर मुड़कर पुर्व दिशा में मूँड़ते हुए मन्नाराम सिरवी के कृषि भूमि को लेकर आगे पुर्व दिशा में बढ़ते हुए कार्नर प्लोट से उत्तर दिशा में बायी तरफ चलते हुए नागणेश्या प्लाटस लेते हुए हनुमान जी मन्दिर से सुप्रीम मार्बल से श्री आईरन स्टोर्स से शेषमल /राजोबा चौधरी के कार्नर गैरज से पश्चिम दिशा में बायी तरफ घुमते हुए राजोबा मार्केट को लेते हुए आगे धनलक्ष्मी आफसेट, धनलक्ष्मी रेस्टोरेट से कान्तिलाल सुथार दस्तावेज लेखन से केनपुरा रोड क्रोस कर उत्तर दिशा तहसील कार्यालय के पास की गली के कार्नर दुकान मकरानी कार से आगे बढ़ते हुए सीधे एम.डी. सिंह का कार्नर मकान को लेते हुए पुनः पश्चिम दिशा में बायी तरफ बढ़ते हुए कमला जोशी से श्यामजी सुथार के मकान से सोहनलाल जी जांगीड से हनुमानदास/सीताराम के मकान को लेते हुए रोड क्रास कर यासीन भाई छोपा के गोदाम से उत्तर दिशा में बायी ओर मुड़ते हुए कार्नर पर बाली वाले के मकान से धीसुलाल चौधरी के मकान को लेते हुए बायी तरफ सीधे-सीधे चलते हुये पोमाराम/राजाजी चौधरी के मकान से आगे का कार्नर वडेर प्लोट से पश्चिम दिशा में बायी ओर घूमते हुए रोड क्रास करते हुये धीसुलाल कुम्हार के मकान से वजाराम चौधरी के मकान से कार्नर से दक्षिण दिशा में बायी ओर घुमते हुए रोड क्रास करते हुये पश्चिम दिशा में कार्नर पर प्रवीणसिंह के मकान को लेते हुए गेपरराम राईका के मकान को लेते हुए प्रभुराम भील के मकान लेते हुए कानाराम भील सीधे कार्नर खेतलाजी थान चौक से मुड़ते हुए पुनः सीधे चेनसिंह राजपुरोहित के कार्नर प्लोट तक के बीच समस्त भाग का गोल्डन कॉलोनी, श्रीनाथ कालोनी, बालाजी नगर, शिव नगर, साई दर्शन, भीलों का वास चौधरीयों का वास व कॉलोनी एवं अन्य बीच की गलियां, खेत का भाग आमने सामने का भाग सम्मलित हैं।

### वार्ड संख्या 03

#### ऐरिया

मोहम्मद अयुब व मोहम्मद साबीर पुत्र बशीर मोहम्मद के मकान के नुक्कडसे उत्तर दिशा में

दायी और चलते हुए मटनसिंह के मकान को लेते हुए सीधे शैतान सिंह की दुकान के सामने रोड क्रास करते हुए गोविन्दसिंह/करणसिंह राजपुत के मकान को लेते हुए सुथारों के बन्द पड़े मकान को लेते हुए उत्तर दिशा में घुमते हुए भीमसिंह की दुकान से बाबुलाल जी सुथार के मकान को लेते हुए महादेवजी का मन्दिर को लेते हुए दायी और उत्तर दिशा में चलते हुए उम्मेदसिंह का कार्नर मकान से केसरसिंह/नरपति सिंह/ओटाराम/ चुन्नीलाल मेघवाल के मकान से प्रतापराम/भगाराम मेघवाल के मकान से कार्नर के दोनों प्लॉट से दायी और सीधे चलते हुए हनुमानजी मन्दिर से जीवाराम/नारायणलाल सरगरा का मकान से नारायणलाल सरगरा के मकान से रोड क्रास करते हुए मोहम्मद अकरम खां के मकान से पश्चिम दिशा के दायी तरफ सीधे चलते हुए मोहम्मद यासीन के मकान से सतार खां लोहे के कारखाने से पुनः पुर्व दिशा में दायी और मुड़ते हुए मांगीलाल माली के मकान को लेते हुए शेषाराम कुम्हार के मकान से मगाराम के मकान से शेरूभाई बाबुलाल पुत्र ओटारामजी से वली मोहम्मद के मकान से पीतले फैकटी (हंजाबाई गौशाला) से सीधे आगे गुमानसिंह दरबार के मकान एवं प्याउ से सीधे कृषि भूमि को लेते हुए माणक छोपा खिमाराम जी मेघवाल के मकान से मुहम्मद आरीफ के मकान से दक्षिण दिशा में घुमते हुए पुखराज डांगी के दायी और चलते हुए दाद मोहम्मद/नजीर खाँ के मकान से दायी और युनुश खा के मकान से भारती के मकान से उम्मेद जी मेघवाल के मकान से रोड क्रास करते हुए सामने मिश्रु खाँ, मुस्ताक खाँ के मकान से पुर्व दिशा में दायी और मुड़ते हुए अकील/हनीफ खाँ के मकान से दक्षिण दिशा में दायी और चलते हुए रत्न देवी/भेरुसिंह के मकान से होते हुए सुथार के मकान को लेते हुए सीधे चलते हुए दायी और चम्पालाल लुहार का कारखाना लेते हुए पश्चिम दिशा में दायी और मुड़ते हुए गिरधारीसिंह अध्यापक के मकान से चुन्नीलाल लुहार का पुराना नोहरा (प्लॉट) से महेन्द्र कुमार मेवाड़ा के मकान से मालसिंह राजपुरोहित के मकान से वेलोबा चौधरी आसावा बेरा भीको का बेरा उम्मेदराम मीणा बैंक मेनेजर का मकान से खिमाजी वैष्णव दादावाड़ी के मकान से पश्चिम दिशा में दायी और चलते हुए मोहम्मद अयुब व मोहम्मद साबीर पुत्र बशीर मोहम्मद के पिछे वाला मकान तक का बीच का समस्त भु भाग जिसमें राजपुतों का वास जे.के. कॉलोनी सरगरा का मोहल्ला रानी कलां जाने के रास्ते के दायी तरफ में निर्मित मकानात आमने सामने के मकान बजरंग कॉलोनी खेतखलीयान में बसी आबादी आदि सम्मिलत हैं।

#### वार्ड संख्या 04

##### ऐरिया

जनाना अस्पताल के सामने मांगीलाल जी माली के नोहरे से उत्तर दिशा में बायी और चलते हुए राजेश महात्मा के नुक्कड़ के प्लॉट लेते हुए उत्तर दिशा में बायी और से चलते हुए फुटरमल/मोहन जी हरिजन के मकान से बाबुलाल/पेमाजी हरिजन से सुरेश/कालुराम हरिजन से रामदेवजी के मन्दिर से ईशाक मोहम्मद /लाल मोहम्मद से सलमा/सफी मोहम्मद से बायी और दक्षिण दिशा में घुमते हुए कपुरचन्द/भबुतमल के मकान लेते हुए शंकरजी नाई के मकान को लेते हुए सीधे इसाक पठान के प्लॉट के नुक्कड़ से पुर्व दिशा में घुमते हुए रोड क्रास करते हुए दक्षिण दिशा में अनवर खाँ/हासम खाँ के मकान को लेते हुए दक्षिण दिशा में बायी और चलते हुए महेश जी कश्यप के मकान का लेते हुए शनिश्चर जी मन्दिर लेते हुए रमेश सैन से भंवर जी लुहार के मकान से ताज मोहम्मद से घेवरजी फ्रुट वाले के कार्नर मकान से घुमकर पुर्व दिशा में बायी और आगे चलते हुए भावना इन्जिनियरिंग को लेते हुए सत्यनारायण दवे के मकान के पीछे का भाग से कपुरजी माली

के मकान को लेते हुए पुनः मांगीलाल/लुम्बाजी माली के नोहरे तक के बीच का समस्त भु भाग आमने सामने की गलियां आदि सम्मिलित हैं, जिसमें हरिजन बस्ती का भाग हनुमान रोड का भाग सम्मिलित है।

### वार्ड संख्या 05

ऐरिया

जनाना अस्पताल के नुक्कड़ से पश्चिम दिशा में बायी ओर चलते हुए पुरानी भ्रगवती रोलिंग मिल्स से सालासर बालाजी किराणा स्टोर्स के कार्नर के मकान लेते हुए रोड क्रास कर छात्रपति शिवाजी नगर की ओर बढ़ते हुए हरिसिह/झुमरीसिह से श्यामसिह/खिमसिह से छोगलाल मेवाड़ा के मकान से रोड क्रास कर कानदासजी वैष्णव अध्यापक के मकान को लेते हुए पश्चिम दिशा में बायी ओर चलते हुए तहसील कार्यालय बाउण्डी से सीधे चलते हुए पुर्व दिशा बायी ओर बढ़ते हुए पंचायत समिति कार्यालय से पशु चिकित्सालय से चलते हुए नगर पालिका की दुकान लेते हुए शुलभ शौचालय से उत्तर दिशा में बायी ओर घुमते हुए धर्मवीर मैदान की बाउण्डी के सहारे चलते हुए मोतीलाल जी घांची के कार्नर के मकान से रोड क्रास करते हुए पुर्व दिशा में बायी ओर चलते हुए बंशी भाई वैष्णव व सोनी की पुरानी कोटरियों से चलते हुए बस्तीमल/भारताजी लुहार के कार्नर के मकान से उत्तर दिशा में बायी ओर घुमते हुए छोगजी बा लुहार से आगे चलते हुए बाबुलाल लुहार का कारखाना से मुला भाई कुमावत के पीछे के भाग से बायी ओर पश्चिम दिशा में मुड़कर मुला भाई कुमावत के मकान के आगे के भाग से बायी ओर चलते हुए हरिलाल धोबी के मकान से रोड क्रास कर रतु भाई घांची के चक्की वाले के मकान को लेकर उत्तर दिशा में बायी और घुमते हुए मंगजी माली के मकान से घनश्याम सोनी के मकान के नुक्कड़ से पश्चिम दिशा में बायी ओर घुमते हुए वक्तों बा माली के मकान से पुनः जनाना अस्पताल तक के बीच के भाग में स्थित आमने-सामने की गलियां, गजानन्द जी मन्दिर चौधरियों का वास मेघवालों का मोहल्ला आदि सम्मिलित है।

### वार्ड संख्या 06

ऐरिया

धर्मवीर मैदान रोड पर रामलाल/जवाजी घांची के मकान से दक्षिण में दायी ओर सीधे चलते हुए वली मोहम्मद/राजु खां के मकान से मोहनलाल घांची उम्मेदसिह जी कच्छवाह के मकान से रोड क्रास कर सामने स्थित कच्छवाह ऑफिस से पुर्व दिशा में दायी और आगे बढ़ते हुए नर्बदा डैरी से जैन एग्रिकॉ के कार्नर को लेते हुए पुनः दक्षिण दिशा में मुड़ते हुए दायी ओर घुमते हुए विधुत विभाग से खीमावत सदन से आगे चलते हुए खिमेल रोड सीधे चलते हुए मगजी चौधरी बेरे से हनुमान मन्दिर पालिका सीमा एवं नगर पालिका सीमा आक्सफोर्ड स्कूल को सम्मिलित करते हुए स्कूल के पुर्व दिशा में दायी ओर चलते हुए कृषि भुमि में बने हुए मकानात लेते हुये तारू भाई/भेरू भाई की फैक्ट्री दिव्या कन्स्टक्शन से प्रथम घुमाव (आक्सफोर्ड स्कूल साईन बोर्ड) से उत्तर दिशा में दायी और घुमते कार्नर वाला मनजी बां चौधरी प्लोट लेते हुए श्री रामदेव मार्बल लेते हुए भाविक उधोग, सोलंकी इन्जिनियरिंग से महालक्ष्मी मार्बल, सिमा एन्टरप्राइजेज महादेव एग्रीकल्चर, कमल उधोग लेते हुए पुर्व दिशा में दायी ओर घुमते हुए सोना एन्टरप्राइजेज लेते हुए मालवीय एग्रीको, भारतीय इस्पात के सामने उत्तर दिशा में रोड क्रास करते हुए दायी तरफ घुमते हुए कार्नर दुकान से हीरजी वैष्णव से गफुर सिलावट के मकान व कारखाने के नुक्कड़से पुर्व दिशा में दायी

और घुमते हुए चारभुजा मन्दिर से गवरियों के मकान से ओगड़ मिस्त्री वागराम घांची के मकान को लेते हुए पुनः रामलाल जवानजी घांची के मकान तक के बीच का समस्त भाग जिसमें औधेंगिक क्षैत्र, फैक्टी, कुन्थुनाथ कॉलोनी, सिलावट मोहल्ला, गुजरो का मोहल्ला आमने-सामने की गलियां खेत खलियान पर बने मकानात भी सम्मलित सम्मलित हैं।

### वार्ड संख्या 07

ऐरिया

मनपंसद स्टील फर्नीचर आसू भाई लुहार वर्कशाप से दक्षिण में दायी ओर चलते हुए शंकरसिह/भोमसिह राजपुरोहित के मकान से चलते सुकनराज सुथार के गोदाम से होते हुए रोड क्रास कर शेषमल सुथार (शिव शक्ति मार्बल) कार्नर से पुर्व दिशा में दायी और घुमते हुए पुना भाई सुथार के मकान से नरसिंह सुथार वर्कशाप मदन मिस्त्री के सामने रोड क्रास कर पुर्व दिशा में चलते हुए दायी और पुराना एसबीबीजे बैंक (सुथारो का नोहरा) से दक्षिण दिशा में घुमते हुए दायी और चलकर आगे तारु सुथार राजश्री चार्ट आरएमजीबी बैंक सुकन सुथार (मुलचंद कांचवाले) से टान्सपोर्ट कम्पनी की ओर बाबुलाल/थानमल के मकान से कार्नर से पश्चिम दिशा में दायी ओर घुमते हुए आगे चलते हुए धीसुलाल जैन पैटोल पम्प श्याम /कालुदास वैष्णव से जीवराम सुथार (नेशनल टिम्बर मार्ट) से उत्तर दिशा से दायी और घुमते हुए फोजाराम लुहार से रमजान खां हेदर शेख से पुराना मालवीय इन्जिनियरिंग के कार्नर से रोड क्रास कर उत्तर दिशा में दायी ओर चलते हुए विजय मालवीय का मकान कान्तीलाल धोबी के मकान से चम्पालाल मालवीय के कार्नर प्लॉट को लेते हुए पुर्व दिशा में दायी और घुमते हुए दायी ओर सीधे चलते हुए पुनः मनपंसद स्टील फर्नीचर तक के बीच समस्त भु भाग जिसमें सुथार लुहारों का बास सिलावटों का वास आमने सामने की गलियां सम्मलित हैं।

### वार्ड संख्या 08

ऐरिया

नन्दु भाई सोनी के मकान से बायी और पश्चिम दिशा में चलते हुए राधा कृष्ण मन्दिर शनिकृपा भवन अन्नु नायर पोस्ट ऑफिस से रामजी प्रजापत के मकान से मांगीलाल जी माली के नोहरे को लेते हुए दक्षिण दिशा में बायी ओर घुमते हए सुरज किरण सोनी से पुर्व दिशा बायी तरफ घुमते हुए अशोक भाना के मकान से रोड क्रास करते हुए बायी ओर के सोहन माली के मकान से बायी ओर दक्षिण दिशा में घुमते हुए पुनमचंद लुहार के मकान से बायी और पुर्व दिशा में घुमते हुए आगे मनजी चौधरी की कोटरियां के सम्मलित करते हुए पुर्व दिशा में ही बायी ओर कार्नर तरुण सुमन दवे श्रीमाली के मकान से चलते हुए श्रीमाली समाज नोहरा से उत्तर दिशा में घुमकर बायी ओर चलते हुए पतासीबाई स्कुल से सीधे नन्दुजी सोनी के मकान तक बीच का सम्पुर्ण भाग जिसमें आमने-सामने की गलियां चौधरियों का वास का भाग सुथारों के मकानात राधाकृष्ण मन्दिर के पास, हनुमान मन्दिर रोड का भाग सम्मलित है।

### वार्ड संख्या 09

ऐरिया

प्रताप बजार दुर्गा शंकर मोबाइल की दुकान से रोड क्रास कर विश्रांति गृह की प्याउ से पुर्व दिशा में स्थित रेल्वे स्टेशन को लेते हुए दक्षिण दिशा में बायी ओर रेल्वे लाईन चलते हुए रेल्वे फाटक से नया बस स्टेण्ड से पुनः घुमते हुए उत्तर दिशा में दायी और चलते हुए भाटियासा की फैक्टी

दादावाड़ी मनोज ढलावत की दुकान दिनेश /मोतीलाल जैन की दुकान, रेल्वे क्वाटर को लेते हुए भीमाराम/ नरिंगजी सुथार के कार्नर मकान को लेते हुए गफुर सिलावट की दुकान के सामने से रोड क्रास कर पश्चिम दिशा में दायी ओर स्थित भीमाराम सुथार के निर्माणाधीन दुकानों को लेते हुए पुनः उत्तर दिशा में दायी ओर चलते हुए उम्मेदजी सुथार भरत जैन राजेन्द्र सुरी काम्पलेक्स के पीछे के भाग चलते हुए भाग्यलक्ष्मी जैवलर्स से उत्तर दिशा में चलते हुए जवाहरलाल दवे के मकान को लेते हुए मदनजी त्रिवेदी, मोहनसिंह से नत्थु भाई अग्रवाल के पिछे के कार्नर से रोड क्रास करते हुए पुनः उत्तर दिशा में दायी और आगे चलकर मंगल कुमावत के कार्नर सैलुन दुकान से पश्चिम दिशा में दायी ओर चलते हुए नवनिर्मित काम्पलेक्स को लेते हुए देवजी कुमावत का मकान से सीधे चलते हुए पेजका भुमि बाबू धोबी का मकान सुनारों के मकान से कार्नर पर स्थित जोधाराम कुमावत का प्लॉट लेते हुए पुनः उत्तर दिशा में दायी ओर घुमते हुए तेजाराज चम्पालाल, सोहन हरिजन के मकानों से कार्नर मकान देवाराम/भीकाजी हरिजन के मकान को लेते हुए पुनः पुर्व दिशा में दायी ओर घुमते हुए सीधे चलकर मांगीलाल की फैकटी कमल इन्जिनियरिंग धोबियों के मकान बाबुलाल सोनी की जैवलर्स की दुकान से सीधे दुर्गाशंकरजी मोबाइल की दुकान तक के बीच का समस्त भाग आमने-सामने की गलियां हरिजन बस्ती का भाग कुम्हारों का वास, हनुमानजी रोड का भाग सम्मलित है।

## वार्ड संख्या 10

ऐरिया

प्रताप बाजार आदर्श मिठान मन्दिर जेठुसिंह राजपुरोहित खटुकडा की दुकान से उत्तर दिशा में बायी ओर चलते हुए लच्छु भाई धोबी के मकान से कब्रिस्तान अजमेर मोटर्स से उम्मेदसिंह मिस्ट्री मोटर साईकिल रिपेयरिंग से हरिसिंह राजपुरोहित खरोकडा के दुकानों के कार्नर को लेते हुए पश्चिम दिशा में बायी ओर घुमते हुए राम स्नेही गैस सोलंकी इन्जिनियरिंग से सीधे चलते हुए पुनाराम खारवाल रिटायर्ड कर्मचारी से गौरु भाई सरदार के खेत की बाउण्डी के सहारे चलते हुए आदर्श स्कुल के पीछे के भाग के सहारे आगे चल कर पुनः दक्षिण दिशा में बायी ओर घुमते हुए कार्नर पर स्थित मोची बंशीभाई सफी मोहम्मद से चुन्नीलाल आगरी से विधा / मदनलाल हरिजन के कार्नर के मकान से पुनः पुर्व दिशा में बायी ओर घुमते हुए आगे चल कर गौरु भाई सरदार का मकान नवनिर्मित पुराना सिनेमा घर बिल्डिंग से सीधा किशन भाई सरदार के मकान को लेते हुए पुनः आदर्श मिठाई मन्दिर तक का सम्पुर्ण बीच का भाग जिसमें आमने सामने की गलियां सिधि विनायक नगर, शान्ती नगर, हरिजन बस्ती का भाग आईमाता नगर तक का ऐरियां सम्मलित हैं।

## वार्ड संख्या 11

ऐरिया

चौधरी स्वीट होम से दक्षिण दिशा में बायी ओर आगे बढ़ते हुए धीसूलाल जैन के मकान से हेमराज की दुकान से सोसाईटी से सीधे कृषि मण्डी के दिवार के सहारे आगे चलते हुए पुर्व दिशा में बायी ओर घुमते हुए वर्धमान नगर मे प्रवेश कर बायी ओर आगे प्रथम सोनीजी के मकान के दीनदयाल कृपा आगे बढ़ते हुए चम्पतभाई कलाल के मकान से मां कृपा, मुकेश भाई/कान्तिलाल राठोड जैन (मासुम) कार्नर वाला मकान लेते हुए उत्तर दिशा बायी ओर मे घुमते हुए आगे स्थित मकानों को लेते हुए मुरलीधर सोनी के मकान से विजय चोरासियां के मकान से चौधरी मारसा का निर्माणाधीन मकान से सीधे आगे बढ़ते हुए बायी ओर स्थित कानाराम मारसा के मकान से पास के

निर्माणाधीन मकान कार्नर से पश्चिम दिशा से बायी और घुमते जयन्तिलाल/कुपारामजी लुहार बड़ली वाले के मकान से आगे बढ़ते हुए दलोबा मकान से अशोक वाटिका (अशोक/जेठमल) लेते हुए तापड़िया नगर के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हुए उत्तर दिशा के बायी ओर आगे बढ़ते हुए हंसमुख /डालचंद सोनी के मकान के पीछे के भाग से पाण्डेयसा के मकान से आगे बढ़ते हुए जावतराज पुनमियां (तीन बंगला) के कार्नर मकान के पीछे के भाग से पुनः पश्चिम दिशा में बायी ओर चलते हुए आगे अम्बिका सिमेन्ट से रोड क्रास कर उत्तर दिशा में बायी ओर कार्नर पर स्थित जीवन कॉम्प्लेक्स से मस्जिद से आगे आईसीआईसीआई बैंक से बाड़मेरा ज्वैलर्स से सीधे शान्तीनाथ जैन मन्दिर से खिमावत काम्प्लेक्स के कार्नर दुकान ओटरमल / सुरजमल पारिख से आगे बढ़ते हुए राजेश भाई सोनी की दुकान से कार्नर वाली कान्तिलाल राठौड़ की दुकान से पश्चिम दिशा में बायी ओर घुमते हुए बनवारीलाल अग्रवाल के कार्नर दुकान से पुनः दक्षिण दिशा में बायी ओर घुमते हुए आनन्द किशोर अग्रवाल से विनोद नेमीचन्द जैन की दुकान से राजु/ नेमीचंद जैन की दुकान से जे.के. अग्रवाल के कार्यालय से चन्दु भाई जैन से मस्जिद के पीछे के भाग के सामने स्थित लालचन्द गांछा बाबुलाल लुहार के मकान को लेते हुए पास के कार्नर वाले मकान से दक्षिण दिशा में बायी ओर चलते हुए शान्तीलाल जैन के कार्नर मकान को लेते हुए पुनः चौधरी स्वीट होम तक के बीच का भाग जिसमें वर्धमान नगर का भाग नाकोड़ा नगर का भाग तापड़िया नगर का भाग जीवन बस्ती का भाग के साथ आमने-सामने की गलियां सम्मलित हैं।

## वार्ड संख्या 12

ऐरिया

पुराना टेलिफोन एक्सचेन्ज श्री भंवरलाल जी के कार्नर मकान से उत्तर दिशा में दायी ओर बढ़ते हुए एसबीआई बैंक से पुलिस थाने, नुर मोहम्मद शेख से पदमावती प्लाईवुड से जैन धर्मशाला से अमरनाथ काम्प्लेक्स से कार्नर दुकान भवानी हार्डवेयर्स पश्चिम दिशा में दायी ओर आगे बढ़ते हुए कार्नर दुकान राधिक फैशन एवं मेचिंग सेन्टर के सामने पुर्व दिशा में दायी ओर अमोलकचंद के मकान के पिछे के कार्नर मकान से आगे रोड क्रास कर कार्नर पर स्थित धीसुलाल नाई की दुकान से प्रकाश खारवाल की दुकान से गणपत चौधरी के मकान से शितला चौक के कार्नर की दुकान से पुनः दक्षिण दिशा में दायी ओर घुमते हुए रामदेवजी मन्दिर से पुनः पश्चिम में दायी ओर घुमते हुए आगे अरोड़ा मुकटनारायण अद्यापक के मकान से गणपत चौधरी के मकान के पिछे से शनिश्चर मन्दिर के पीछे के कार्नर मकान से पारसमल अमरचन्द जी से दक्षिण दिशा में दायी ओर आगे बढ़ते हुए भुति वाले के कार्नर मकान के पीछे के भाग से रोड क्रास कर मेहमुद खां ईमाम खां के मकान को लेते हुए पुर्व दिशा में दायी ओर आगे बढ़ते हुए हजारी मिस्त्री के मकान सिकन्दर का कार्नर मकान लेते हुए पुनः रोड क्रास कर शंकरसिंह मारसा के मकान को लेते हुए दक्षिण दिशा में दायी ओर आगे बढ़ते हुए रूपाराम रामाजी कुम्हार के कार्नर मकान से पुनः पश्चिम दिशा में दायी ओर घुमते हुए आगे बढ़कर इन्दु भण्डारी महावीर जैन का गोदाम से फुटरमल/अचलचंद जी का आरा से पुनः पुराने टेलिफोन एक्सचेन्ज भंवरलाल जी जैन के मकान तक के बीच का समस्त भाग व आमने-सामने की गलियां व मकानात सम्मलित हैं।

## वार्ड संख्या 13

ऐरिया

धीसुलाल चौधरी के कार्नर मकान से दक्षिण दिशा में दायी ओर चलते हुए महावीर माध्यमिक

विधालय से तापडिया नगर के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर पुर्व दिशा में बायी ओर आगे बढ़ते हुए ऐरन सा के मकान से आगे चलते हुए नाकोडा नगर में प्रवेश करते हुए कार्नर प्लोट लेते हुए सामने व राजु दोलिया के मकान से दक्षिण में बायी ओर घुमते हुए एमएल सोनी के मकान को लेते हुए आगे चलते हुए पेमाराम/मानाराम मारसा के मकान को लेते हुए सुहानी सदन को लेते हुए रोड क्रास कर कान्ती भाई की बगीची से पश्चिम दिशा में बायी ओर घुमते हुए अरूण भाई महात्मा के मकान को लेते हुए बायी ओर वर्धमान नगर से बाहर निकलते हुए बायी ओर दक्षिण दिशा में चलते हुए नेशनल एग्रीको गायत्री आरओ से नगर पालिका खीमेल रोड सिमा तक चौधरियों का बेरा जोराराम, चुन्नीलाल चौधरी बाबुलाल चुनाजी का बैरा से पुनः घुमते हुए उत्तर दिशा में विश्वकर्मा कॉलोनी से चलते हुए चन्दु भाई पंजाबी के बैरा लेते हुए उत्तर दिशा में स्थित सम्पुर्ण रामायण नगर को लेते हुए उत्तर दिशा में चलते हुए बायी ओर शंकर/चुन्नीलाल, शिवलाल/गेन्दाजी के मकान से पश्चिम दिशा में बायी ओर चलते हुए अशोक/रत्नजी के मकान से मिठेश्वर जी मन्दिर को लेते हुए नगर पालिका लेते हुए पोस्ट ऑफिस दक्षिण दिशा में बायी ओर घुमते हुए टेलिफोन एक्सचेन्ज से पुनः पश्चिम दिशा में बायी ओर घुमते हुए जयन्ति भाई जैन के मकान को लेते हुए आदर भाई पटेल से धीसु भाई चौधरी के मकान तक का बीच का भाग आमने सामने की गलियां जिसमें तापडियां नगर का भाग, नाकोडा नगर का भाग वर्धमान नगर एवं रामायण नगर सम्मलित हैं।

#### वार्ड संख्या 14

ऐरिया

भवानी टेलर्स के नुक्कड मकान से दक्षिण दिशा में बायी ओर चलते हुए सुरेश/रतनलाल छोपा के कार्नर मकान से रोड क्रास करते हुए सोहनलाल भाटी के मकान से पश्चिम दिशा में बायी ओर बढ़ते हुए भीबो बा भाट के मकान से ओटरमल जैन के नुक्कड मकान से दक्षिण दिशा में बायी ओर घुमते हुए निसार डायर के मकान से अली मोहम्मद के नुक्कड मकान से पुर्व दिशा में बायी ओर घुमते हुए कासम खां के मकान से मोतीलाल जी भाट के मकान को लेते हुए मदनलाल/उमाजी भाटके मकान से छितरमल अरोडा से उमेश भण्डारी के मकान से पुर्व दिशा में मनजी भाट के मकान से हरिसिंह राजपुत के मकान से भोपालसिंह राजपुत के नुक्कड के मकान से उत्तर दिशा में बायी ओर घुमते हुए सुर्यप्रकाश दोलियां के मकान से पन्नजी भाट की चक्की के नुक्कड से पश्चिम दिशा में बायी ओर घुमते हुए जीवराम/चुन्नीलाल जी माली से रमेश खारवाल के मकान के सामने से उत्तर दिशा में बायी ओर स्थित डॉ. सी.एम. रावल के नुक्कड मकान से पश्चिम दिशा में बायी ओर घुमते हुए मोहनलाल/वालाजी खारवाल के मकान से मोतीलाल/ कन्हैलाल(रिटायर्ड पोस्ट मास्टर) के मकान से दोलतसिंह पंजाबी से पारस भाई/अमीचन्द जैन से सीधे चलते हुए पुनः भवानी टेलर्स तक का बीच का भाग व आमने सामने की गलियां मकानात सभी सम्मलित हैं।

#### वार्ड संख्या 15

ऐरिया

मुराद खां मकरानी के कार्नर के मकान से दक्षिण दिशा से बायी ओर आगे बढ़ते हुए पीर मोहम्मद से देवजी के किरणा स्टोर्स कॉर्नर से रोड क्रास कर दक्षिण दिशा में बायी ओर स्थित शंकरलाल लुहार के मकान से चुन्नीलाल माली के नुक्कडके मकान से पुर्व दिशा में बायी ओर बढ़ते हुए मोतीलाल अद्यापक के मकान से पुना भाई चौधरी के मकान के पीछे के भाग से रोड क्रास करते

हुए दक्षिण दिशा में बायी ओर स्थित पुजा स्टुडियों को लेते हुए केसरसिंह से मांगीलाल/नरसिंग भाट के नुक्कड मकान से पुर्व दिशा में बायी ओर घुमते हुए सवाराम भाट मांगीलाल पुत्र रतनजी भाट के दक्षिण दिशा में बायी आगे बढ़ते हुए हनुमानजी मन्दिर से मोहनलाल/हंजारीजी भाट के नुक्कड के मकान से पुर्व दिशा में कृष्णा कॉलोनी से बाहर निकलते हुए पुर्व दिशा में दायी ओर आगे बढ़ते हुए नथमल के बगीची नगर पालिका सीमा के सामने रोड क्रास कर उत्तर दिशा में बायी ओर कार्नर स्थित गोविन्दलाल/हिराजी लोहार, सिमेन्ट लेते हुए टाईनी टोट्स स्कुल लेते हुए सीधे आगे शेषाराम माली के मकान से बायी ओर सीधे चलते हुए नगर पालिका सीमा के अंतिम छोर तक से पुनः पश्चिम दिशा में नदी किनारे स्थित शमशान घाट के सामने के कुए को लेते हुए दक्षिण दिशा में बायी ओर चलते हुए रा.उ.मा. विधालय से पश्चिम दिशा में चलते हुए बायी ओर कार्नर पर स्थित इब्राहिम खां जी के मकान से आगे बायी ओर घुमते हुए दक्षिण दिशा में मांगु खां, धीसुभाई मीणा से चलते हुए पुनः मुराद खां जी मकरानी के मकान तक के बीच का सम्पुर्ण भाग, श्री रामनगर, हिंगलाज कॉलोनी, कृष्णा नगर, मोकम्पुरा रोड का भाग मकरानी मोहल्ला का भाग व आमने सामने के मकान व गलियां सम्मलित हैं।

#### वार्ड संख्या 16

ऐरिया

भंवरलाल माली से उत्तर दिशा में बायी ओर चलते हुए विरियामसिंह पंजाबी के मकान से बालचन्द सेमलानी के मकान से आगे जेठमल जी तापडियां के मकान से रोड क्रास करते हुए सामने किशोरमल/सोहनलाल के मकान से पुर्व दिशा में बायी ओर चलते हुए भावेश/दीपचंद मकान से उत्तर दिशा में बायी ओर घुमते हुए भंवरजी बापु के मकान को लेते हुए पारसमल धोखा गोदाम को लेते हुए जगदीश रावल के सामने नुक्कड वाले प्लोट से पश्चिम दिशा में बायी ओर घुमते हुए पारसमल वागोल वाले के नुक्कड मकान से दक्षिण दिशा में बायी ओर घुमते हुए बस्तीमल जैन ढालोप वाले के मकान को लेते हुए वाडीलाल के मकान से रोड क्रास करते हुए धीसुलाल पिलोवनी वाले के मकान के पश्चिम दिशा में बायी ओर घुमते हुए हनुमानजी मन्दिर से हिरालाल चिंतारा के मकान से भावेश/पारसमल का नया मकान लेते हुए शान्तिलाल जवानमल जैन की दुकानों को लेते हुए सेमलानी ब्रदर्स, राजावत जैवलर्स के नुक्कड से दक्षिण दिशा में बायी ओर घुमते हुए नसरूदीन की दुकान से रूपचंद/किस्तुरचंद जैन की दुकान से हस्तीमल सेमलानी की दुकान से मुलचंद/भागचंद के बंद मकान के नुक्कड से पुर्व दिशा में बायी ओर घुमते हुए भगवान टी.वी. हाउस से दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए, मदनजी पारिख की बंद दुकान के नुक्कड से पुर्व दिशा में बायी ओर बढ़ते हुए राजमल सोनी की दुकान से खीमजी/नारायण सोनी की दुकान से आगे पंजाब साईकिल से लक्ष्मी नारायण सोनी पुनाराम चौधरी से केसुभाई कलाल के मकान को लेते हुए पुनः भंवरलाल माली के बीच का समस्त भाग जिसमें आमने सामने की गलियां घासीयों की गली नाईयों की गली धोकों का वास और खारवाल की गली सम्मलित हैं।

#### वार्ड संख्या 17

ऐरिया

बालवीर हनुमान मन्दिर के नुक्कड से दक्षिण दिशा में बायी ओर बढ़ते हुए प्रकाश कुमार/साकंलचंद जी मेहता (मेहता इलेक्ट्रीक) मकान से सेवासिंह जी पंजाबी से कार्नर मकान बदामी पत्नि चुन्नीलाल जी के नुक्कड मकान से बायी ओर पुर्व दिशा में घुमते हुए तेजराज जी सोनी/

खिमराज जी सोनी, बायोसा का मन्दिर कुन्दनमल जैन का मकान लेते हुए कार्नर देवजी चौधरी अद्यापक नुक्कड मकान से उत्तर दिशा में बायी ओर से घुमते हुए निर्मल चौरसियां के मकान से बोहरीमल मानमलजी के नुक्कड मकान से उत्तर दिशा से सिधें चलते हुए इब्राहिम खां से हरीश सुराणा से निर्माणधीन मकान के सामने के रोड क्रास करते हुए डॉ एम. एल. मेहता के मकान से पुर्व दिशा में बायी ओर चलते हुए नुक्कड प्लोट से बायी ओर चलते हुए राजकीय उच्च माध्यिक बालिका विधालय को लेते हुए पुर्व दिशा में घुमते हुए नया जी.एस.एस. को लेते हुए सीधा शमशान घाट के बायी ओर चलते हुए नदी किनारे मामाजी का मन्दिर को लेते हुए वक्तोबा कॉलोनी को लेते हुए बायी ओर चलते हुए पुरानी कुन्दनमल जी की बगीची से पुर्व दिशा में गेट में प्रवेश करते हुए बायी ओर चलते हुए प्रकाश सेमलानी के मकान के सामने स्थित जगदीश जी रावल के मकान से दक्षिण दिशा में बायी ओर आगे बढ़ते हुए लेहर कंवर पत्नि जुहारसिंह जी राजपुत के मकान से पारस भाई धोखा के मकान से सकुर रंगरेज के कार्नर मकान से रोड क्रास करते पुनः बालवीर हनुमानजी मन्दिर तक बीच का सम्पुर्ण भाग जिसमें से आमने सामने की गलियां व मकानात नवनिर्मित (सृजित) साई मन्दिर का भाग काठडी मोहल्ला भटवाडा मोहल्ला का भाग सम्मिलित है।

### वार्ड संख्या 18

ऐरिया

पालिका सीमा नदी किनारे पी.डब्ल्यू.आई. निवास से दक्षिण दिशा में बायी ओर रेल्वे कॉलोनी गोरीशंकर मन्दिर, आदर्श कॉलोनी, आराधना कॉलोनी, राठोड कॉलोनी से नाकोडा बिल्डिंग से दक्षिण दिशा में बायी ओर आगे बढ़ते हुए जलदाय विभाग, हिंगड अस्पताल राजकीय सिरवी मेडीकल से बासा न्याति न्योरा के पीछे के भाग से रमजान चुड़ी घर से महावीर स्टूडीयो, बाबुभाई वैष्णव के मकान के पास बंद पड़े सोनी जी के मकान के नुक्कड से पुर्व दिशा में बायी ओर घुमते हुए भरत राठोड के कार्यालय को लेते हुए संजय इलैक्ट्रोनिक दुकान मेहता इलेक्ट्रीक से भीमा/पुना चौधरी की दुकान को लेते हुए सुपार्वनाथ जैन मन्दिर को लेते हुए रोकड भाई मोची के मकान से हिम्मत रावल के मकान के नुक्कड से उत्तर दिशा में बायी ओर घुमते हुए धर्मन्द जी जैन के मकान से आगे अणुव्रत भवन से आगे बढ़ते हुए हिंगड राजकीय अस्पताल के पीछे वाली बाउण्डी के सहारे चलते हुए बायी ओर नदी किनारे स्थित भंवरसिंह राजपुत का बेरा लेते हुए नदी किनारे बायी ओर चलते हुए गौरी शंकर महादेव मन्दिर के पीछे पुनः पी.डब्ल्यू.आई. निवास तक के बीच का समस्त भाग कृषि एवं आमने सामने स्थित मकान गलियां जिसमें हिंगड मोहल्ला सिरवीयों की गली जिनगर मोहल्ला के भाग सम्मिलित है।

### वार्ड संख्या 19

ऐरिया

कालुराम प्रजापत के कार्नर प्लोट से पश्चिम दिशा में दायी ओर चलते हुए चम्पालाल/रूपाजी लुहार राशन डिलर्स के मकान से ढगली बाई के मकान से गंगा चौधरी के मकान से सीधे चलते हुए गणपत खारवाल के मकान से बालाजी किराणा स्टोर्स से आगे चलते हुए लच्छाराम परिहार के मकान को लेते हुए श्यामलाल अद्यापक के मकान को लेते हुए सीधे चलकर दायी ओर चलते हुए प्रताप मीणा के नये मकान को लेते हुए नाथाराम/टेकाराम मीणा के मकान को लेते हुए सीधे चलते हुए हस्तीमल/खिमजी जिनगर के मकान को लेते हुए उत्तर दिशा में नदी किनारे स्थित अम्बेडकर स्कूल को लेते हुए पुर्व दिशा में चलते हुए सीधा शमशान घाट लेते हुए आगे चलकर वाटर वर्क्स

पम्प हाउस से नगर पालिका सीमा तक से दक्षिण दिशा में दायी ओर घुमते हुए कार्नर मकान हस्तीमल, भरत जैन के नुक्कड मकान से ब्राह्मणी टी स्टाल से सीधे चलते हुए अष्टापद जैन से सीधे चलते हुए धनराज रांका की बगीची की दुकानों को लेते हुए कृष्णा खाथ बीज भण्डार से चलते हुए डॉ दोलियां टावेल्स से चलते कालुराम प्रजापत के कार्नर प्लॉट तक के बीच का समस्त भाग जिसमें अम्बेडकर कॉलोनी इटन्दरा मार्ग, शिव नगर, जिनगर नगर, पंचवटी कॉलोनी, दुदाराम धोबी की आवासीय कॉलोनी, तिरुपति बालाजी मन्दिर एरिया का समस्त भाग आमने सामने की गलियां सम्मलित हैं।

## वार्ड संख्या 20

### ऐरिया

प्रताप बाजार केसुलाल बैरवा के कार्नर मकान से पश्चिम दिशा में बायी ओर चलते हुए माधुलाल बैरवा से कासम खां सोहनलाल मेघवाल, हेमाराम/ जीवाजी भाट के मकान को लेते हुए गुलाबजी हिरागर के मकान से धीसाराम जी गवारियां के मकान को लेते हुए सीधे चलते हुए चुन्नीलाल / छतरारामजी मीणा का मकान से निवार फैक्टी, सुनिल बैरवा फैक्टी नगर पालिका सीमा नदी तक व रानी गांव कच्चा रास्ता के नगर पालिका सीमा तालाब के किनारे स्थित भैरोजी के मन्दिर से पुनः पुर्व दिशा में बायी ओर घुमते हुए आई.टी.आई., गणेशराम वकील के बैरा खीमजी माली के बैरा खेत खलीहान इन्दरसिंह, केसरसिंह का बैरा मकान, कृषि भुमि लेते हुए रोड क्रास कर पुर्व दिशा में बायी ओर के सामने स्थित नारायणलाल स्टेशन मास्टर(आर) के मकान को लेते हुए त्रिलोकचन्द मुलचन्द बैरवा का मकान से शंकरभाई लुहार के कारखाने से पुनाराम कुम्हार राजश्री स्वीट कार्नर दुकान से सामने रोड, क्रास कर हनीफ मारसा के मकान से दक्षिण दिशा से बायी ओर घुमते हुए रामदेवजी मन्दिर से असरफ बानु लादुभाई बैरवा, देवीलाल बैरवा भारत भवन गुरुद्वारा से आबकारी गौदाम के कार्नर से पुर्व दिशा में घुमते हुए रेल्वे पटरी के सहारे पुनः उत्तर दिशा में बायी तरफ आगे बढ़ते हुए सीधे नदी एवं नगर पालिका सीमा तक पुनः घुमते हुए दक्षिण दिशा में बायी ओर घुमते हुए सीधे चलकर पुर्व प्रधान पाबुसिंह राणावत की दुकान से रोड क्रास कर पुनः केसुलाल बैरवा के मकान तक के बीच का सम्पुर्ण भाग आमने सामने की गलियां सुन्दर नगर रेल्वे रिटायर्ड कॉलोनी विजय नगर जे.के. कॉलोनी आदि सभी सम्मलित हैं।

अधिशाषी अधिकारी  
नगर पालिका रानी खुर्द

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।